

आधार प्रविष्टि एवं प्रमाणीकरण के लिए स्वीकृति फार्म

शाखा प्रबंधक
 बैंक.....
 शाखा.....

दिनांक:

प्रिय महोदय/महोदया,

मेरे/हमारे नाम पर बैंक खाता सं.

खाते को आधार / यूआईडी संख्या के साथ लिंक करना और यूआईडीएआई के साथ प्रमाणीकरण.

आपकी शाखा (शाखा का नाम.....) में मेरा / हमारा बचत / चालू / वीकेसीसी खाता संख्याचल रहा है.

मैं/हम अपनी आधार संख्या/ओं को प्रस्तुत कर रहे हैं तथा स्वैच्छिक रूप से मैं / हम अपने उपर्युक्त खाता संख्या में मेरे / हमारे आधार संख्या/ओं की प्रविष्टि तथा यूआईडीएआई से प्रमाणीकरण हेतु सहमति प्रदान करते हैं: (टिक मार्क के माध्यम से उचित अनुरोध का चयन करें).

- केवल गैर लेन-देन उद्देश्यों हेतु (केवायसी के रूप में)
- मुझे/हमें भारत सरकार से मेरे/ हमारे उपर्युक्त खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्राप्त करने में सहायता हेतु एनपीसीआई में मैपिंग तथा मेरे आधार नंबर को यूआईडीएआई के साथ प्रमाणित करने के लिए. मैं / हम समझते हैं कि यदि मुझे / हमें एक से अधिक अंतरण लाभ मिलता है तो, मुझे / हमें मिलने वाले सभी अंतरण लाभ इसी खाते में प्राप्त होंगे.
- मेरे / हमारे खाता -----(बैंक का नाम) से बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ खोले गए उपर्युक्त खाते (डीबीटी लाभ की राशि की प्राप्ति हेतु) की एनपीसीआई मैपिंग में परिवर्तन के लिए
- एईपीएस (आधार समर्थित भुगतान प्रणाली) और आधार प्रमाणीकरण समर्थित अन्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए.

आधार / यूआईडी विवरण निम्नानुसार है:

आधार / यूआईडी संख्या.....

आधार धारक का नाम जैसा आधार कार्ड पर हो.

उपर्युक्त दिए गए विवरण मेरी/ हमारी पूर्ण जानकारी और समझ के अनुसार सत्य है. मैं / हम यह समझता / समझती हूं कि मेरे / हमारे द्वारा बैंक को प्रस्तुत की गई सूचना का उपयोग उपर्युक्त उल्लिखित उद्देश्यों, अथवा विधि की आवश्यकताओं के अलावा अन्य कहीं उपयोग नहीं होगा. मैं / हम यह भी समझता / समझती हूं कि यदि पूर्व बैंक में पीएमजेडीवाय अतिदेय बकाया शेष रहता है तो डीबीटी लाभ प्राप्त करने के लिए पिछले बैंक से एनपीसीआई मैपिंग को नहीं बदला जाएगा.

भवदीय,

(खाता धारक/कों के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

नाम:

मोबाइल नं.

ई-मेल

संलग्नक: आधार पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति

बैंक खाते में आधार नंबर की प्रविष्टि / लिंकिंग की पुष्टि

श्री/ श्रीमती ----- के खाता संख्या ----- (बैंक) -----

----- शाखा ----- को आधार सं. -----

से डीबीटी एवं एईपीएस दोनों / केवल एईपीएस / गैर लेन-देन उद्देश्य (केवायसी के रूप में) के लिए लिंक कर दिया गया है.

शाखा:

दिनांक:

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी)

CONSENT FORM FOR AADHAAR SEEDING AND AUTHENTICATION



The Branch Manager
Bank
Branch.....
.....
.....

Date:

Dear Sir/Madam,

Bank Account No _____ in my /our name
Linking of Aadhaar / UID Number/s with the account and authenticating with UIDAI

I/We am/are maintaining a Savings/Current/BKCC Bank Account number with your Branch (Branch name.....). I/we submit my Aadhaar number/s and voluntarily give my/our consent to seed my/our Aadhaar number/s with my/our aforesaid account and authenticate with UIDAI for; (select appropriate requests through tick mark✓)

- NON-TRANSACTIONAL purposes only (as KYC).
- Mapping it at NPCI to enable me/us to receive Direct Benefit Transfer (DBT) from Government of India in my/our above account and authenticate me with UIDAI. I/we understand that if more than one Benefit transfer is due to me/us, I/we will receive all Benefit Transfers in this account. My / our Aadhaar is not seeded with any other Bank for receiving DBT benefits.
- Changing the mapping at NPCI (for receipt of DBT benefit amount) from my / our account with _____ (name of bank) to my / our above account with Bank of Baroda.
- Availing AEPS (Aadhaar Enabled Payment System) and other services based on Aadhaar authentication

The particulars of the Aadhaar/ UID letter are as under:

Aadhaar/ UID number/s:

Name/s of the Aadhaar Holder as in Aadhaar card:

The particulars given above are true to the best of my / our knowledge and belief. I/we have been given to understand that my/our information submitted to the bank herewith shall not be used for any purpose other than mentioned above, or as per requirements of law. I / We also understand that my NPCI mapping for receiving DBT benefit will not be changed from previous bank in the event of my PMJDY overdraft continuing to be outstanding that bank.

Yours faithfully,

(Signature/ Thumb impression of the account holder/s)

Name/s:
Mobile No.
Email:
Enclosure: copy of the Aadhaar letter/s self-attested,

Confirmation of insertion / linking of Aadhaar numbers with Bank Account:

The Account number of Shri / Smt /
.....with (Bank) Branch has been linked with
Aadhaar number/s/..... for both DBT & AEPS / AEPS only / non-
transaction purpose (as KYC)

Branch:
Date

(Bank's authorized official)